



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 134-2024/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2024 (BHADRA 11, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 सितंबर, 2024

क्रमांक 1040 / कृषि-1 (1)/7240.— हरियाणा के राज्यपाल राज्य में सोयाबीन की कटाई का समय अक्टूबर-नवम्बर, 2024 और खरीद अवधि अक्टूबर-नवम्बर, 2024 तक अधिसूचित करते हैं।

डॉ० राजा शेखर वुंडरू,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE DEPARTMENT

Notification

The 2nd September, 2024

No. 1040 /Agri. II (I)/7240.— The Governor of Haryana is pleased to notify the harvesting period of Soyabean from October-November, 2024 and procurement period from October-November, 2024.

DR. RAJA SEKHAR VUNDRU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Agriculture and Farmers Welfare Department.

11264—C.S.—H.G.P., Pk1.

(2732)